

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन कर्मचारियों के लिए वैक्सिनेशन पॉलिसी पेश करेगी

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (1 सितम्बर, 2021) – आज की विशेष काउंसिल मीटिंग के बाद, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के द्वारा सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के पूरे स्टाफ के लिए वैक्सिनेशन पॉलिसी (Vaccination Policy) लागू करने के जारी प्रयासों को आगे बढ़ाया जाएगा।

कोविड-19 (COVID-19) के शुरू होने के बाद, सिटी के स्टाफ ने, पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) के मार्गदर्शन के अंतर्गत, ऐसे कई उपायों को लागू करने पर लेबर साझेदारों और पील रीजन (Peel Region) की म्युनिसिपल्टीज के साथ मिलकर काम किया है, जो सिटी की सेवाओं की डिलीवरी में कर्मचारियों और पब्लिक की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। यह पॉलिसी, सिटी के स्टाफ और उनके परिवारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बनाए रखने में मदद करते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए उसी दृष्टिकोण का अनुसरण करेगी कि सिटी कोविड-19 से सुरक्षा देते हुए, अपनी कम्युनिटी को सुरक्षित रूप से सेवा पेश करना जारी रख सकती है।

सिटी की पॉलिसी, ओनटैरियो सरकार (Government of Ontario) के द्वारा आज घोषित जानकारी पर भी विचार करेगी, जिसके लिए चुनिंदा जगहों पर वैक्सिनेशन का प्रमाण जरूरी होगा।

पील रीजन में सबसे बड़े इंप्लायर्स में से एक के तौर पर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में 6,000 से अधिक कर्मचारी नियुक्त हैं। यह ऐसे स्वस्थ और सुरक्षित कार्यस्थल के लिए प्रतिबद्ध है, जो स्टाफ और उस कम्युनिटी के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता हो, जिसे यह सेवा पेश करता है। यह पॉलिसी, सिटी के सभी विभागों में, सभी कर्मचारियों पर लागू होगी।

छूटों वाले व्यक्तियों को ओनटैरियो ह्यूमैन राइट्स कोड (Ontario Human Rights Code) के अंतर्गत रखा जाएगा।

प्रभावी तारीखों सहित, पूरी पॉलिसी को आगामी सप्ताह में पूरा किया जाएगा।

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क



Media Release

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca